



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2008/पौष 19, 1929

No. 46]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2008/PAUSA 19, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

तालिका

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

क्र.आ. 63(अ).—यतः आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन जो आंध्र प्रदेश राज्य का एक सरकारी संगठन है, ने आंध्र प्रदेश राज्य में सरपावरम गाँव, काकीनाडा ग्रामीण, पूर्व गोदावरी जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपरचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है:

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने आंध्र प्रदेश राज्य में सरपावरम गाँव, काकीनाडा ग्रामीण, पूर्व गोदावरी जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में सरपावरम गाँव, काकीनाडा ग्रामीण, पूर्व गोदावरी जिले में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

क्रम सं	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	सरपावरम	116	1.364
2.		118	0.246
3.		119	2.688
4.		120	1.570
5.		121	1.578
6.		122	1.700
7.		123	1.267
		कुल :	10.413 हेक्टेयर

[फा. सं. 1/137/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2008

S.O. 63(E).—Whereas Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation, a Government Organization in the State of Andhra Pradesh, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Sarpavaram Village, Kakinada Rural East Godavari District in the State of Andhra Pradesh;

And whereas the Central Government is satisfied that requirements under Sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under Sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Sarpavaram Village, Kakinada Rural East Godavari District in the State of Andhra Pradesh on 12th October, 2007;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Sarpavaram Village, Kakinada Rural East Godavari District in the State of Andhra Pradesh, comprising of the survey numbers and the area given below, as a Special Economic Zone :—

TABLE

Sl. Village No.	Survey number	Area (in hectares)
1. Sarpavaram	116	1.364
2.	118	0.246
3.	119	2.688
4.	120	1.570
5.	121	1.578
6.	122	1.700
7.	123	1.267
Total : 10.413 Hectares		

[F.No. 1/137/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

का.आ. 64(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 2008 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिससे आंध्र प्रदेश राज्य के सरपावरम गाँव, काकीनाडा ग्रामीण, पूर्व गोदावरी जिले में मै. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चरल कॉर्पोरेशन लि. द्वारा स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एसईजेड को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. 1/137/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2008

S.O. 64(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints the day of, 2008 as the date from which the information technology/information technology enabled services Special Economic Zone at Sarpavaram Village, Kakinada Rural, East Godavari District, Andhra Pradesh by M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructural Corporation Limited shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[F.No. 1/137/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

का.आ. 65(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मै. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चरल कॉर्पोरेशन लि. द्वारा सरपावरम गाँव, काकीनाडा, पूर्व गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
1.	विकास आयुक्त (पदेन निदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, हैदराबाद)	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
3.	क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, हैदराबाद	सदस्य, पदेन
4.	सीमा-शुल्क पत्तन आयुक्त, हैदराबाद अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन

(1)	(2)	(3)
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	
7.	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	
8.	मै. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[फा. सं. 1/137/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2008

S.O. 65(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the information technology/information technology enabled services Special Economic Zone at Sarpavaram Village, Kakinada, East Godavari District, Andhra Pradesh by M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructural Corporation Limited for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

(1)	(2)	(3)
1.	Development Commissioner (Ex-officio Director, Software Technology Parks of India, Hyderabad)	Chairperson, Ex-officio

(1)	(2)	(3)
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	Member, Ex-officio
3.	Joint Director General of Foreign Trade, Hyderabad	Member, Ex-officio
4.	Commissioner of Customs Airport, Hyderabad or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, Ex-officio
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, Ex-officio
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member, Ex-officio
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Andhra Pradesh	Member, Ex-officio
8.	Representative of M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructural Corporation Limited (Developer)	Special Invitee

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner shall represent him.

[F. No. 1/137/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.